

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 फरवरी 2011—माघ 22, शक 1932

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं